



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 21, 1982/माघ 1, 1903

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 1982/MAG 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1982

का० प्रा० 27(अ) — सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जा 3-2-82 से 2-8-82 तक छ मास के लिए मेघालय में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-प्रोप्स/बी०एम०एफ०]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st January, 1982

SO 27(E)—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 3-2-82 to 2-8-82 as active duty

[F No 14/15/82-OPS|BSF]

का० प्रा० 28 (अ) — सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47)) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 10-2-82 से 9-8-82 तक छ मास के लिए मणिपुर में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-प्रोप्स/बी० एम० एफ०]

SO 28(E)—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Manipur for a period of six months with effect from 10-2-82 to 9-8-82 as active duty

[F No 14/15/82-OPS|BSF]

का० प्रा० 29 (अ) — सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 7-2-82 से 6-8-82 तक छ मास के लिए महाराष्ट्र में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-प्रोप्स/बी० एस० एफ०]

SO 29(E)—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra for a period of six months with effect from 7-2-82 to 6-8-82 as active duty

[F. No. 14/15/82-OPS|BSF]

का० प्रा० 30 (अ) — सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 13-2-82 से 12-9-82 तक छ मास के लिए मध्यप्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-प्रोप्स/बी० एस० एफ०]

SO 30(E)—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act,

1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 13-2-82 to 12-8-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 31 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 17-2-82 से 16-8-82 तक छः मास के लिए कर्नाटक में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 31(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Karnataka for a period of six months with effect from 17-2-82 to 16-8-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 32 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 23-2-82 से 22-8-82 तक छः मास के लिए आन्ध्र प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 32(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 23-2-82 to 22-8-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 33 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 28-2-82 से 27-8-82 तक छः मास के लिए उत्तर प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 33(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 28-2-82 to 27-8-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 34 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 22-3-82 से 21-9-82 तक छः मास के लिए हिमाचल प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 34(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the

duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Himachal Pradesh for a period of six months with effect from 22-3-82 to 21-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 35 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 22-3-82 से 21-9-82 तक छः मास के लिए उड़ीसा में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 35(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Orissa for a period of six months with effect from 22-3-82 to 21-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 36 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 22-3-82 से 21-9-82 तक छः मास के लिए गोवा, दमन और दीव में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 36(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Goa, Daman & Diu for a period of six months with effect from 22-3-82 to 21-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 37 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 22-3-82 से 21-9-82 तक छः मास के लिए पाण्डिचेरी में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 37(E). In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Pondicherry for a period of six months with effect from 22-3-82 to 21-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS/BSF]

का० प्रा० 38 (अ) :—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 22-3-82 से 21-9-82 तक छः मास के लिए अरुणाचल प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० 14/15/82-ओप्स/बी० एम० एफ०]

S.O. 38(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Arunachal Pradesh for a period of six months with effect from 22-3-82 to 21-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS|BSF]

क्रा० प्रा० 39 (अ) —सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 22-3-82 से 21-9-82 तक छ. मास के लिए शारंग और नगर हवेली में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी ।

[सं० 14/15/82-ओप्/बी० एम० एफ०]

S.O. 39(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Dogra & Nagar Haveli for a period of six months with effect from 22-3-82 to 21-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS|BSF]

क्रा० प्रा० 40 (अ) —सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 11-3-82 से

10-9-82 तक छ. मास के लिए तामिल नाडु में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी ।

[सं० 14/15/82-ओप्/बी० एम० एफ०]

S.O. 40(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Tamil Nadu for a period of six months with effect from 11-3-82 to 10-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS|BSF]

क्रा० प्रा० 41 (अ) —सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 11-3-82 से 10-9-82 तक छ. मास के लिए सिक्किम में सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी ।

[सं० 14/15/82-ओप्/बी० एम० एफ०]

एम नटाराजन, संयुक्त सचिव

S.O. 41(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Sikkim for a period of six months with effect from 11-3-82 to 10-9-82 as active duty.

[F. No. 14/15/82-OPS|BSF]

M. NATARAJAN, Jt. Secy.

